



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 25.06.2022

दिनांक-26.06.2022 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त नरेश बिन्दु को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपायुक्त काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी श्री आर0एस0 गौतम महोदय द्वारा थाना क्षेत्र भेलूपुर में दिनांक-23/24.06.2022 की रात्रि में घटित गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के संबंध में दिये गये निर्देश के क्रम में तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व थाना प्रभारी भेलूपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.06.2022 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के जरिये मुखबिरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 0218/2022 धारा 304 भादवि0 के अभियुक्त नरेश बिंदु पुत्र गोपाल बिंदु निवासी मोहल्ला रानीपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 42 वर्ष को बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नम्बर 08 के गेट नंबर 02 के पास से समय 09.10 बजे दिनांक 25.06.2022 पर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान – दिनांक 25.06.2022 समय करीब 09.10 बजे बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नम्बर 08 के गेट नंबर 02 के पास से थाना भेलूपुर वाराणसी।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. नरेश बिंदु पुत्र गोपाल बिंदु निवासी मोहल्ला रानीपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 42 वर्ष।

घटना का विवरण - दिनांक 23/24.06.2022 की रात्री को अभियुक्त नरेश बिंदु उपरोक्त अत्यधिक शराब के नशे में था जिसको लेकर उसकी पत्नी (मृतका) ने उसे को शराब न पिने की बात कही जिसके बाद नरेश बिन्दु ने अपनी पत्नी बिन्दु बिन्दु को मकान के छत पर ले जाकर काफी मारापीटा और मार पीट के दौरान ही बिन्दु बिन्दु (मृतका) छत के सिढ़ी के रास्ते निचे गिर गयी। जिससे उसके सिर में काफी गम्भीर चोटे आर्यीं और मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में बिन्दु बिन्दु (मृतका) के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर थाना भेलूपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 संतोष कुमार चौकी प्रभारी महमूरगंज थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. प्रशिक्षु उ0नि0 रोहित दुबे थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. हे0का0 उमेश चंद्र यादव थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. आरक्षी शीत कुमार वर्मा थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी